



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 199-2018/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2018  
(07 अग्रहायण, 1940 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29)। (केवल हिन्दी में)	307
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं।	
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

**भाग-I****हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 28 नवम्बर, 2018

**संख्या लैज.34/2018.**— वाई एम सी ए यूनिवर्सिटी ऑफ साईंस ऐन्ड टेक्नोलोजी फरीदाबाद (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2018, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 नवम्बर, 2018, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

**2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29****वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद (संशोधन)****अधिनियम, 2018****वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय****फरीदाबाद अधिनियम, 2009 को****आगे संशोधित करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद (संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद अधिनियम, 2009 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, "वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद" शब्दों के स्थान पर, "जे0सी0 बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2009 के हरियाणा अधिनियम 21 के वृहत् नाम का संशोधन।
3. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, "वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद" शब्दों के स्थान पर, "जे0सी0 बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2009 के हरियाणा अधिनियम 21 के संक्षिप्त नाम का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) में, "वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "जे0सी0 बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2009 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 2 का संशोधन।
5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "जे0सी0 बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2009 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 3 का संशोधन।

.....

कुलदीप जैन,  
सचिव, हरियाणा सरकार,  
विधि तथा विधायी विभाग।